

**HOLIDAY'S HOMEWORK (AUTUMN BREAK)**

**CLASS - II**

**ENGLISH**

1. Daily practice 1 page of writing.
2. Write any 10 Naming words.
3. Recite the poem- "Mr Nobody."
4. Write days of the week in a proper sequence.


**हिंदी**

1. हिंदी में गिनती लिखो । (1-10 तक)
2. दो अक्षर वाले दस शब्द लिखो।
3. तीन अक्षर वाले दस शब्द लिखो ।
4. निम्न कविताएं याद करनी है ।

(बहुत हुआ, तितली और कली, सूरज जल्दी आना जी)

5. बुलबुल का लित्र बनाकर उसमें रंग भरें।
- 6.

चित्र में दिए गए पौधे के अंगों के नाम लिखो :



7.

वीरू अपनी माँ की बहन को मौसी कहती है। तुम इन्हें क्या कहते हो?  
लिखो :

- (क) माँ की बहन को .....
- (ख) पापा की बहन को .....
- (ग) माँ के भाई को .....
- (घ) पापा के बड़े भाई को .....
- (ङ) पापा के छोटे भाई को .....
- (च) अपनी बड़ी बहन को .....
- (छ) अपने बड़े भाई को .....

## EVS

1. 1st- day - Introduction to yourself. With your picture. (Notebook work )
2. 2nd day – Write the colour name of Rainbow. (Notebook work)
  - a. Drawing the Rainbow A4 paper.
3. 3rd day and 4th day – 1. Draw the part of plants.
  - a. Draw the part of the tree.
4. 5th and 6th, 7th day – Make the poster.
  - a. Save the water.
  - b. Cycle of water.
5. 8th and 9th day – Make the model of clouds on paper chart.
6. 10th day – Our helpers work (notebook work)

# MATHEMATICS

1. Learn and write counting from 1 to 100.
2. Learn and write number names from 1 to 100.
3. Learn and write tables from 2 to 10.

4. Do 6 questions of addition

$$42+63= \_.$$

$$83+24=$$

$$28+51= \_.$$

$$30+78=$$

$$34+23= \_.$$

$$38+11=$$

5. Do 6 questions of subtraction

$$63-42=$$

$$34-23=$$

$$51-20=$$

































$$83-24=$$

$$78-30=$$

$$38-11=$$

6. Do the following worksheets.

Write the no. of 10 rupee-note and 1 rupee-coin that would be needed to buy these things. One has been done for you:

- (a)  $92 =$    notes and   coins
- (b)  $38 =$    notes and   coins
- (c)  $24 =$    notes and   coins
- (d)  $79 =$    notes and   coins
- (e)  $34 =$    notes and   coins
- (f)  $66 =$    notes and   coins
- (g)  $71 =$    notes and   coins
- (h)  $80 =$    notes and   coins
- (i)  $18 =$    notes and   coins
- (j)  $45 =$    notes and   coins
- (k)  $28 =$    notes and   coins
- (l)  $67 =$    notes and   coins
- (m)  $22 =$    notes and   coins
- (n)  $26 =$    notes and   coins
- (o)  $56 =$    notes and   coins
- (p)  $29 =$    notes and   coins

Write the expanded form. One has been done for you:

$25 = 20 + 5$        $34 = \underline{\hspace{2cm}}$        $68 = \underline{\hspace{2cm}}$

$47 = \underline{\hspace{2cm}}$        $76 = \underline{\hspace{2cm}}$        $77 = \underline{\hspace{2cm}}$

$27 = \underline{\hspace{2cm}}$        $48 = \underline{\hspace{2cm}}$        $46 = \underline{\hspace{2cm}}$

$90 = \underline{\hspace{2cm}}$        $10 = \underline{\hspace{2cm}}$        $99 = \underline{\hspace{2cm}}$

$19 = \underline{\hspace{2cm}}$        $14 = \underline{\hspace{2cm}}$        $19 = \underline{\hspace{2cm}}$

$82 = \underline{\hspace{2cm}}$        $27 = \underline{\hspace{2cm}}$        $71 = \underline{\hspace{2cm}}$

$49 = \underline{\hspace{2cm}}$        $53 = \underline{\hspace{2cm}}$        $38 = \underline{\hspace{2cm}}$

$28 = \underline{\hspace{2cm}}$        $96 = \underline{\hspace{2cm}}$        $28 = \underline{\hspace{2cm}}$

$26 = \underline{\hspace{2cm}}$        $16 = \underline{\hspace{2cm}}$        $35 = \underline{\hspace{2cm}}$



Write the short form. One has been done for you:

$60 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$        $70 + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$        $90 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$        $60 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

$90 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$        $80 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$        $80 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$        $10 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$40 + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$        $90 + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$        $50 + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$        $70 + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

$80 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$        $20 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$        $80 + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$        $40 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

$20 + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$        $60 + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$        $30 + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$        $80 + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

$10 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$        $80 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$        $80 + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$        $30 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

$90 + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$        $20 + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$        $60 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$        $10 + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

$40 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$        $70 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$        $70 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$        $20 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

